

शशुदरे जन्य बाईबले
उपहार

दास
यूसुफ के
परमेश्वर
के दुआरा
आदर



লিখিছেন: Edward Hughes

দ্বারা চিত্রিত: M. Maillot; Lazarus
Alastair Paterson

অভযোজিত: M. Maillot; Sarah S.

অনুবাদিত: Sonu Rahi

দ্বারা উত্পাদিত: Bible for Children
www.M1914.org

©2024 Bible for Children, Inc.

লাইসেন্স: আপনার কাছে এই গল্পটি কপি বা প্রিন্ট করার অধিকার আছে,
যতক্ষণ না আপনি এটি করবেন না।



यूसुफ के गलत रीती से अपन
पहिलका मालिक, पोतीपर के
दुआरा जेल में डाल देल गेल हल।
जेलबो में यूसुफ आज्ञा के माने
बाला आउर मदतगार हलथिन।
जेल के देख करे बाला
जेल के रहन सहन के
व्यवस्था करे ला यूसुफ
पर भरोसा कैलन।
परमेश्वर यूसुफ के
संग हलथिन, एही
से ला जेल सभे लागी



एगो बड़ी बढ़िया
जगहा बन गेलई।



राजा के पिलानेहार आउर पकानेहार
जेल में हल। यूसुफ एगो दिन ओकरा
से पुछलन, “तू एतना उदास कहे
हऽ?” उदास आदमीयन जबाब देलथिन,

“कोय हमर
सपना के
भेद न बता
पा रहलन
हे।”



यूसुफ कहलन, “परमेस्वर बता
सकऽ हथन!” हमरा सपना
बताबऽ।




यूसुफ पिलानेहारा से कहलन, “तोहर सपना के मतलब ई हई
की तू तीने दिन में बापस राजा फिरौन के दने हो जईबऽ। तब
तू याद करिहऽ आउर हमरा आजाद करे लागी फिरोन से आग्रह

करिहऽ।” पकानेहारे के
सपना के मतलब बुरा
खबर हलई। यूसुफ
कहलन, “तू तीन
दिन में मार
देल जईबऽ।”
दुनो सपना
सच होलई।



बाकि पिलानेहारा यूसुफ के बारे में भूलल
रहल जखनी ले फिरौन बडी घाबराल एगो

दिन नींद से जागल।
उ चिचीऐलन, “हम
एगो सपना
देखली हे।”



उनखर पण्डितवन में से कोय
उनखा एकर अर्थ समझा न सकल
हल। त पिलानेहारे जेल में यूसुफ
के याद कैलन। ऊ उनखर
बारे में फिरौन के बतैलन।



फिरौन तुरते यूसुफ के बुलाबे ला
भेजलथिन। यूसुफ राजा के बतैलन कि “तोर
सपना परमेस्वर दने से एगो समाचार हई। मिस्र
के सात बरीस बड़ी फलदायक होतो, आउर
सात बरीस लागी बड़ी भारी अकाल पड़तो।”



यूसुफ फिरौन के मसबरा देलन
“अखनी तू सात बढिया बरीस के
दौरान खाय-पिये बाला भडार के भरे
लागी उपाय करऽ” न तऽ तोहर लोगवन
अकाल में भूखले
मरतो। “परमेश्वर
तोहर साथे हथिन,”
“फिरोन एलान
कैलथिन। अखनी से
मिस्र के जिम्मेदारी
तू सम्भालबऽ
“अखनी से हमर
बाद तू ही रहवऽ।”



सात बरीस ला अच्छा (फलदाई) साल अलई। फिन सात बरीस ला अकाल के। मिस्र के छोड़के सभे जगह अनाज दुर्लभ हल। काहे कि ऊ बडी समझदारी से भरपुर अनाज जमा कईलन हल। यूसुफ के दूर अपन देसबा में, याकूब के परिवरबन भूख से मर रहलथिन हल।




सभे देसबा के लोगवन अनाज खरीदे लागी मिस्र देस आबल
करऽ हलथिन। याकूब, अपन बेटबन के आदेश देलथिन “तोहनी
के भी जाय के चाहऽ हबऽ...” न त हमनी

हियाँ भूखे मर जैईबऽ।
मिस्र पहुँचते ही
बेटबन, भोजन
खरीदे लागी
तैयारी कैलन।



याकूब के बेटे बन मिस्र के अधिकारी आदमी के आगे अपन सिर बन के झुकैलन। ऊ अपन भाई युसूफ के पहचान नऽ सकल। बाकी युसूफ ओखनी के पहचान लेलथिन हल। युसूफ अपन बचपन के सपना के याद कैलन। परमेस्वर उनखा अपन भैया बन के उपरे रखलथिन।



यूसुफ बड़ी बुद्धिमान हलाउ उनखा से कठोर
बोली में बात कैलन आउर अपन भाई शिमोन के
कैद करके अपने भीर रख लेलथिन।

उ ओखनी के आदेश देलथिन

“खाना ले लऽ,
घर लौट जा

आउर
अपन
छोटा...



... भाई के साथे बापस लौटबऽ तऽ फिन हम
बिस्वास करबो कि तोहनी सभे भेदिया नऽ
हऽ। भैयबन सोचलन कि कई साल
पहिले यूसुफ के एगो दास नियन
बेचे के चलते
परमेश्वर

ओखनी के
सजा
दे रहलथिन
हे।



याकूब आउर उनकर बेटबा सब उलझन में हलन। “हमनी के पैसा अनाज में बापस लौटा देल गेलो हे।” आउर राजा चाहऽ हथिन कि हमनी बिन्यामिन के उनकरा भीर ले आबी। याकूब, बिन्यामिन के जाय न देथिन। बाकि जल्दी ही खाना खतम हो गेलई। भैयबन के फिनो मिस्र जाय ही पड़तय। ई बार बिन्यामीन उनखर



साथे
गेलन।



जखनी यूसुफ, बिन्यामीन के देखलथिन, अपन दासगन के एगो बड़का भोज तैयारी करे लागी हुकुम कैलन। भैयबन के बुलाबल गेल। “यूसुफ पूछलथिन का तोहर बाबुजी जिन्दा हथन?” हो सकऽ हे ऊ ई सोच रहलन हल की सभे परिवार के एक जौरे कैसे लाबल जा सकऽ हे।



यूसुफ ई भी जाने ला चाहऽ
हलथिन कि उनखर भैयबन
दुआरा बहुत साल पाहिले
करल गेल पाप लागी सच्चो
में पछताबा हल। भोज के
बाद ऊ ओखनी पर चोरी
के इल्जाम डाललन।



यूसुफ कहलथिन, “तोहनी के सजा देबे
लागी बेन्जामिन के अपन सेबक बनाके
रखबो” यहूदा बिनती कैलन “हमर
मालिक, उनकर बजाय तू
हमर जान ले लऽ।” यूसुफ के
पता चल गेल जौन युहुदा
यूसुफ के बेचे ला सुझाब



देलन हल ऊ अब सच्चो
में बदल गेल हल।



जखनी युसूफ देरी ले अपन परिवार लागी
अपन प्यार के छिपा न सकलन, तऽ सभे
मिस्रबसी के बाहरे भेज के रोबे
लगलन। “हम तोहर

भाई यूशुफ़ हि
जेकरा तोहनी
मिस्रबासी के
हाथे बेच देल


हल। चकित
और डर के चलते
भैयबन कुछो
न बोलल।”



यूशुफ़ अपन भैयबन के हौसला देलन। “परमेस्वर हमरा मिस्र
में अधिकारी बना देलथिन हे

जे से हम ई अकाल में
तोहनी के प्राण के रक्षा कर
सकऽ ही। जा, हमर बाबूजी
के हमरा भीर ले आबऽ। हम
तोहनी सभे के देख-भाल

करबो।”



याकूब आउर युसूफ
मिस्र में फिन एगो
दूसरे से मिललन आउर
सभे परिवार सांति आउर
भरपूरी में हुआँ रहलन।



दास यूसुफ के परमेश्वर के दुआरा आदर

ঐশ্বররে বাক্য, বাইবেলে থেকে একটি গল্প,

পাওয়া যায়

उत्पत्ति 39 -45

“তোমার শব্দরে প্রবশেদ্বার আলো দিয়ে।”

গীতসংহিতা 119:130



দ্য এন্ড



এই বাইবেলেরে গল্প আমাদেরকে আমাদেরে বস্মিয়কর ঈশ্বর সম্পর্কে বলে
যনি আমাদেরে তরৈকিরছেনে এবং যনি চান আপনি তাঁকে জানুন।

ঈশ্বর জাননে আমরা খারাপ কাজ করছি, যাকে তিনি পাপ বলেছেন। পাপরে
শাস্তি মৃত্যু, কনিতু ঈশ্বর আপনাকে এত ভালোবাসনে তিনি তাঁর একমাত্র
পুত্র, যীশুকে ক্রুশে মরতে এবং আপনার পাপরে জন্ম শাস্তি পতে
পাঠয়িছেন। তারপর যীশু আবার জীবতি হয়। স্বর্গে চল গেলেনে! আপনি যদি
যীশুতে বশ্বিাস করনে এবং তাঁর কাছে আপনার পাপরে ক্షমা চান, তিনি তা
করবেনে! তিনি আসবেনে এবং এখন আপনার মধ্যবে বাস করবেনে, এবং আপনি
চরিকাল তাঁর সাথে বসবাস করবেনে।

যদি আপনি বশ্বিাস করনে যে এটি সত্য, তাহলে ঈশ্বরকে বলুন:
প্রয়ি যীশু, আমি বশ্বিাস করয়ি যে আপনি ঈশ্বর, এবং আমার পাপরে জন্ম
মরতে একজন মানুষ হয়েছিলেন, এবং এখন আপনি আবার জীবতি হয়েছেন।
দয়া করে আমার জীবনে আসুন এবং আমার পাপ ক্షমা করুন, যাতে আমি
এখন নতুন জীবন পতে পারয়ি, এবং একদিন চরিকাল আপনার সাথে থাকতে
পারয়ি আমাকে আপনার আনুগত্য করতে এবং আপনার সন্তান হিসাবে
আপনার জন্ম বাঁচতে সাহায্য করুন। আমীন।

বাইবেলে পড়ুন এবং প্রতদিনি ঈশ্বরেরে সাথে কথা বলুন! জন 3:16

